

अधिसूचना

विषय: त्रिवर्षीय श्रेणीबद्ध मूल्यपरक शिक्षा: 'प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम'

7 दिसम्बर 2013 को रामकृष्ण मिशन, नई दिल्ली में 'मूल्य परक शिक्षा क्या, क्यों, कैसे' नामक शीर्षक से अधिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में, स्वयं के ससांधनो के प्रयोग से 'मूल्य परक शिक्षा के अन्तर्गत त्रिवर्षीय श्रेणीबद्ध प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए विद्यालयों से कुछ प्रतिबद्धताएँ अपेक्षित हैं। सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी इस मिशन की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो कर इस पुनीत कार्य के कार्यान्वयन के लिए अपनी सहर्ष सहमति की पुष्टि प्रदान करें:

1. इसके लिए शिक्षकों को वर्ष 2014 में तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा 2015 में अन्य 3 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागी बनना होगा। इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ से कम से कम दो शिक्षकों को मनोनीत करें। यही प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षणोपरान्त इस कार्यक्रम को अपने विद्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन, नई दिल्ली में विभिन्न समूहों के लिए 21 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 15 मई तक आयोजित किये जाएंगे।

निम्नलिखित स्लॉट उपलब्ध हैं-

1. 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2014
 2. 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2014
 3. 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2014
 4. 1 मई 2014 से 3 मई 2014
 5. 5 मई 2014 से 7 मई 2014
 6. 8 मई 2014 से 10 मई 2014
 7. 12 मई, 13 मई और 15 मई 2014
2. कार्यक्रम की लागत, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त 250 निजी (प्राइवेट) विद्यालयों में से दो शिक्षकों को निशुल्क प्रशिक्षण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
 3. इसी प्रशिक्षण के लिए आपको प्रतिवर्ष प्रशिक्षण हेतु इसकी वार्षिक शुल्क राशि रु.1000 का तीन वर्ष तक भुगतान करना होगा। इसमें ऑन लाइन कार्यक्रम के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करना तथा चुनिंदा विशेषज्ञों द्वारा विद्यालयों का दौरा सम्मिलित है।

4. शिक्षण उपकरण एवं प्रशिक्षण सामग्री रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली की बौद्धिक सम्पत्ति होगी। इसे कोई भी विद्यालय 'प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम' के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रम एवं उद्देश्य के लिए लिखित में पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रामकृष्ण मिशन द्वारा नामित/प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ दल आपके विद्यालय में व्यापक लेखा निष्पादन करेंगे। तथा साथ ही आपके विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों के साथ विचार विमर्श कर तथ्य एकत्रित करेंगे।

इस कार्य के क्रियान्वयन में आप सभी का सहयोग एवं सहमति अपेक्षित है।

5. सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-2015 से शुरु होने वाले इस कार्यक्रम को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।

यदि आप सभी उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं दशाओं से सहमति रखते हैं तो कृपया संलग्नित रजिस्ट्रेशन फार्म में अपने विद्यालय एवं शिक्षकों से संबंधित ब्यौरा भर कर एक डिमांड ड्राफ्ट चैक (जोकि रामकृष्ण मिशन के नाम से हो) के साथ तुरन्त रामकृष्ण मिशन, नई दिल्ली में सम्मिलित करा दें।

'प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम' की अनन्य सफलता के लिए आप सभी से एक दीर्घकालीन सहयोग की अपेक्षा है।

अधिक जानकारी के लिए आप निम्न विशेषज्ञों से सम्पर्क कर सकते हैं-

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. पिया चक्रवर्ती | 9818184195 |
| 2. चैताली चटर्जी | 9899181116 |
| 3. मंजीरा माजुमदार | 8800837375 |
| 4. प्रसून गुहा बिसवास | 9811077525 |

यथाक्रम आप उन्हें दी गयी ई-मेल valuesrkmdelhi.tt@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं

डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/ अनुसंधान /प्रशिक्षण/नवाचार)